



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 112]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 20, 2012/पौष 30, 1933

No. 112]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 20, 2012/PAUSA 30, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2012

का.आ. 122(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला भूमि अध्याप्ति अधिकारी रामपुर को उत्तर प्रदेश राज्य में नीचे दी गई अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 के 207.080 कि.मी. से 211.400 कि.मी. (मुरादाबाद-बरेली संक्शन) तक के भूखण्ड के सबंध में बाइपास सहित, यदि कांड हो उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 के 207.080 कि.मी. से 211.400 कि.मी. तक (मिलक बाईपास) की बाबत भूमि का अर्जन।

क्रम संख्या	जिला	तालुक	पुलाम थाना	गांव का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	रामपुर	मिलक	मिलक	(1) सिरा (2) धर्मपुरा

[फा. सं. भारासप्रा/ 11013/एनए/नोटिफ/2011/पीआईयू मुरादाबाद]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2012

S.O. 122(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the District Land Acquisition Officer Pampur, Uttar Pradesh, as the competent authority to perform the functions of such authority under the said Act with effect from the date of

publication of this Notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from km 207.080 to km 211.400 of National Highway No. 24 (Moradabad-Bareilly Section), for building (widening/for laning etc.), maintenance, management and operation of the said National Highway including by passes if any, in the State of Uttar Pradesh as specified in the Schedule given below.

SCHEDULE

Acquisition of land in respect of National Highway No. 24 in the State of Uttar Pradesh on the stretch from Km. 207.080 to Km. 211.400 (Milak Bypass)

Sl. No.	District	Taluka	Police Station	Name of Village
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Rampur	Milak	Milak	(1) Sira (2) Dharpura

[F. No. NHAI/11013/LA/Notif/2011/PIU-Moradabad]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.